

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 05.12.2022

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 04/05.12.2022 को 12 वारण्टी व अन्य कुल 15 वांछित अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया तथा 27 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गयी।

01. ➔ थाना असन्द्रा पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त को 01 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 52 ग्राम अवैध स्मैक के साथ किया गिरफ्तार-

थाना असन्द्रा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त जसीम पुत्र नन्हू निवासी गनीमत नगर मजरा शाहपुर थाना भोजपुर जपनद मुरादाबाद को दिनांक 04.12.2022 को कन्हवापुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 52 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना असन्द्रा पर मु0अ0सं0-547/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0-548/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

02. ➔ थाना फतेहपुर पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद -

थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 शानू पुत्र स्व0 इस्माईल निवासी मोहल्ला मछली मण्डी नालापार दक्षिणी कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 05.12.2022 को बाबाकुटी मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद कर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 664/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

03. ➔ थाना मसौली पुलिस ने 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 04 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद-

थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.12.2022 को अभियुक्तगण 1. संजेश कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल 2. रामसमुझ पुत्र स्व0 छोटेलाल 3. गुड्डू पुत्र रामसागर निवासीगण बिरौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 04 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद की गयी। थाना मसौली पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 655/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

04. ➔ थाना लोनीकटरा पुलिस ने 02 जुआरियों को किया गिरफ्तार-

थाना लोनीकटरा पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 02 अभियुक्तगण 1. नम्मू उर्फ कायम अली पुत्र कय्यूम अली निवासी गढ़ी थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी 2. अनूप चन्द पुत्र बिहारीलाल निवासी शाहपुर सिदवी थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी को दिनांक

04.12.2022 को 52 अदद ताश के पत्ते व 570/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनीकटरा पर मु0अ0सं0 435/2022 धारा- 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

05. ➔ थाना सुबेहा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. हरभजन पुत्र स्व0 रामआधार 2. शिवमोहन पुत्र गुरुचरन निवासीगण देवरनिया थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी को दिनांक 04.12.2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना सुबेहा पर मु0अ0सं0 361-362/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

06. ➔ थाना असन्द्रा पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना असन्द्रा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामसजीवन पुत्र अयोध्या निवासी सेमरावा थाना कोठी जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 05.12.2022 को रारी बाजपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना असन्द्रा पर मु0अ0सं0 549/2022 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

07. ➔ थाना मसौली पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र मो0 इरफान निवासी सुरसण्डा थाना मसौली जनपद बाराबंकी को दिनांक 04.12.2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मसौली पर मु0अ0सं0 656/2022 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

08. ➔ थाना सफदरगंज व वन स्टाप सेन्टर की संयुक्त टीम द्वारा गुमशुदा बच्ची के परिजनों का पता लगाकर किया गया सुपुर्द-

दिनांक 04.12.2022 को थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत एक बच्ची मिली, जो अपना नाम व पता नहीं बता पा रही थी। जिसे थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा वन स्टाप सेन्टर के सुपुर्दगी में दिया गया। थाना सफदरगंज पुलिस व वन स्टाप सेन्टर के सहयोग से गुमशुदा बच्ची को आज दिनांक 05.12.2022 को परिजनों के सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा प्रसन्नता प्रकट करते हुए बाराबंकी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।